

यह रहा हिंदी से मराठी सीखने का step-by-step गाइड :-

□ Stage 1: Foundation (Basics)

1. Script (Easy win)

अच्छी खबर: हिंदी और मराठी दोनों **देवनागरी लिपि** का उपयोग करते हैं, इसलिए आपको वर्णमाला दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है।

2. Pronouns (Very Important)

Hindi	Marathi
मैं	मी
तुम	तू / तुम्ही
आप	तुम्ही
वह	तो / ती / ते
हम	आम्ही

□ Marathi distinguishes gender more clearly:

- तो = वह (male)
 - ती = वह (female)
-

3. Basic Sentence Structure

Same as Hindi:

□ **Subject + Object + Verb**

- मैं खाना खाता हूँ
→ मी जेवतो
 - मैं घर जा रहा हूँ
→ मी घरी जात आहे
-

4. “है / हूँ / हैं” in Marathi

Hindi	Marathi
हूँ	आहे
है	आहे
हैं	आहेत

Examples:

- मैं ठीक हूँ → मी ठीक आहे
- वे लोग हैं → ते आहेत

□ Stage 2: Core Grammar

5. Verb System (Key Difference)

Marathi verbs change based on **gender + tense**.

Present Continuous

Formula:

□ Verb root + त + आहे

Hindi	Marathi
मैं जा रहा हूँ	मी जात आहे
वह खा रहा है	तो खात आहे

6. Past Tense

Hindi	Marathi
मैंने खाया	मी खाल्ले
वह गया	तो गेला
वह गई	ती गेली

□ Notice gender:

- गेला (male)
 - गेली (female)
-

7. Future Tense

Hindi	Marathi
मैं जाऊँगा	मी जाईन
वह करेगा	तो करेल

8. “को” (Dative Case)

Hindi: मुझे, तुम्हें

Marathi uses ला

Hindi	Marathi
मुझे	मला
तुम्हें	तुला
उसे	त्याला

Example:

- मुझे पानी चाहिए
→ मला पाणी पाहिजे
-

9. Questions

Hindi	Marathi
क्या	काय
कहाँ	कुठे
क्यों	का
कैसे	कसे

Example:

- तुम कहाँ जा रहे हो?
→ तू कुठे जात आहेस?
-

□ Stage 3: Daily Conversation Skills

10. Common Sentences

- मुझे समझ नहीं आया
→ मला समजलं नाही
 - क्या कर रहे हो?
→ काय करत आहेस?
 - मुझे यह पसंद है
→ मला हे आवडते
-

11. Polite Speaking

Use **तुम्ही** instead of तू:

- तुम्ही कसे आहात? (आप कैसे हैं?)
 - धन्यवाद (thank you)
-

□ Stage 4: Intermediate Fluency

12. Complex Sentences

- अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा
→ जर तू आलास तर मी जाईन
 - मुझे लगता है कि...
→ मला वाटतं की...
-

13. Continuous Practice Pattern

Daily:

1. Convert 5 Hindi → Marathi sentences
2. Speak aloud
3. Listen to native speech

Use:

- YouTube (search Marathi conversations)
-

□ Stage 5: Advanced Speaking

14. Natural Marathi Thinking

Instead of translating:

- Think directly in Marathi
- Use shorter sentences

Example:

- मुझे बहुत भूख लगी है
→ मला खूप भूक लागली आहे
-

15. Idiomatic Usage

- काय चाललयं? (क्या चल रहा है?)
- काही नाही (कुछ नहीं)
- बघूया (देखते हैं)